

JK-264

M.Com. Ist Semester (New)/ATKT

Examination, 2016

Advanced Accounting

Paper - III

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 35

नोट :- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Note :- Attempt all the questions.

खण्ड - 'अ'

SECTION - 'A'

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1×15=15

Objective Type Questions

1. सही उत्तर का चयन कीजिए :

Choose the correct answer :

(i) अदत्त व्यय खाता है :

P.T.O.

(2)

JK-264

(अ) व्यक्तिगत खाता

(ब) वास्तविक खाता

(स) नाममात्र खाता

(द) इनमें से कोई नहीं

Outstanding expenses account is a :

(A) Personal account

(B) Real account

(C) Nominal account

(D) None of these

(ii) तलपट में दिखाए जाने वाले अदत्त व्यय रखे जाएंगे :

(अ) आर्थिक चिट्ठा में

(ब) व्यापारिक खाता में

(स) लाभ-हानि खाता में

(द) इनमें से कोई नहीं

Outstanding expenses appearing in Trial Balance

will be placed in :

(A) Balance Sheet

(B) Trading Account

(C) Profit and Loss Account

(D) None of these

(iii) बैंक समाधान विवरण है :

- (अ) पास बुक का हिस्सा
 (ब) रोकड़ बही का हिस्सा
 (स) खाता हानि का हिस्सा
 (द) स्मारक विवरण

Bank Reconciliation statement is a :

- (A) Part of the Pass Book
 (B) Part of the Cash Book
 (C) Part of the Ledger Account
 (D) Memorandum Statement

(iv) सुधार के लेखे सामान्यतया किए जाते हैं :

- (अ) वर्ष के अन्त में
 (ब) वर्ष के प्रारम्भ में
 (स) किसी भी दिन
 (द) इनमें से कोई नहीं

Rectification entries are usually passed :

- (A) At the end of the year
 (B) At the beginning of the year
 (C) Only day
 (D) None of these

P.T.O.

(v) प्राप्ति और भुगतान खाता है :

- (अ) व्यक्तिगत खाता
 (ब) वास्तविक खाता
 (स) नाममात्र खाता
 (द) इनमें से कोई नहीं

Receipts and Payments Account is a :

- (A) Personal Account
 (B) Real Account
 (C) Nominal Account
 (D) None of these

(vi) पुस्तपालन की अपूर्ण अभिलेखन विधि है :

- (अ) वैज्ञानिक
 (ब) आपूर्ण
 (स) व्यवस्थित
 (द) इनमें से कोई नहीं

Incomplete record mechanism of book-keeping is :

- (A) Scientific
 (B) Incomplete
 (C) Systematic
 (D) None of these

(vii) विनियोग में सम्मिलित लिये जाते हैं :

- (अ) अंश, ऋणपत्र
(ब) बॉण्डस
(स) उक्त सभी

Investment involves :

- (A) Share, Debenture
(B) Bonds
(C) All of these

(viii) विनियोग पर दलाली की गणना की जाती है :

- (अ) बाजार मूल्य पर
(ब) अंकित मूल्य पर
(स) इनमें से कोई नहीं

Calculation of Brokerage on Investment are :

- (A) On market value
(B) On face value
(C) None of these

(ix) फर्म के विघटन पर बैंक अधिविक्रय को हस्तांतरित किया जाता है :

- (अ) रोकड़ खाते में
(ब) बैंक खाते में

P.T.O.

(स) वसूली खाते में

(द) साझेदार के पूँजी खाते में

On dissolution of a firm, bank overdraft is transferred

to :

- (A) Cash Account
(B) Bank Account
(C) Realisation Account
(D) Partner's Capital Account

(x) वसूली खाता है :

- (अ) व्यक्तिगत खाता
(ब) नाममात्र खाता
(स) वास्तविक खाता
(द) इनमें से कोई नहीं

Realisation Account is a :

- (A) Personal Account
(B) Nominal Account
(C) Real Account
(D) None of these

(xi) भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की कौन-सी धारा फर्म से अनिवार्य विघटन से सम्बन्धित है :

- (अ) धारा 40
 (ब) धारा 41
 (स) धारा 43
 (द) धारा 44

Which of the following sections of Indian partnership Act, 1932 is related with compulsory dissolution of firm :

- (A) Section 40
 (B) Section 41
 (C) Section 43
 (D) Section 44

(xii) उपर्जित ब्याज से आशय :

- (अ) वह ब्याज जो कमाया नहीं गया है, किन्तु प्राप्त हो गया है।
 (ब) वह ब्याज जो कमाया गया है किन्तु प्राप्त नहीं हुआ है।
 (स) वह ब्याज जो न तो लगाया गया है और नहीं प्राप्त हुआ है
 (द) इनमें से कोई नहीं

The meaning of accrued interest :

- (A) The interest is not earned but received
 (B) The interest is earned but not received

P.T.O.

- (C) The interest is neither earned nor received
 (D) None of these

(xiii) एकीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है :

- (अ) आपसी प्रेम व भाई चारा बढ़ाना
 (ब) आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त करना
 (स) हानि के भय से मुक्ति पाना
 (द) इनमें से कोई नहीं

The main object of amalgamation is :

- (A) To increase mutual friendliness
 (B) To finish mutual competition
 (C) To release from the fear of loss
 (D) None of these

(xiv) रोकीकरण लेखे का शेष साझेदारों के पूँजी लेखे में हस्तांतरित कर दिया जाता है :

- (अ) बराबर बराबर में
 (ब) पूँजी अनुपात में
 (स) साझेदारों के ऋण के अनुपात में
 (द) लाभ-हानि अनुपात में

Balance of Redisation Account is transfered to partners capital account :

(9)

JK-264

- (A) Equally
 (B) In capital ration
 (C) In partners loan ratio
 (D) In profit-loss ratio

(xv) कर-व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है :

- (अ) निर्माणी लेखा
 (ब) व्यापार एवं लाभ-हानि लेखा
 (स) आय-व्यव लेखा
 (द) उपर्युक्त सभी

Non trading institutions prepare :

- (A) Manufacturing Account
 (B) Trading and Profit-Loss Account
 (C) Income and Expenditure Account
 (D) All of the above

खण्ड - 'ब'

SECTION - 'B'

लघु उत्तरीय प्रश्न

5×5=25

Short Answer Type Questions

2. चिट्ठा एक विवरण क्यों है ?

Why Balance Sheet is a Statement ?

P.T.O.

(10)

JK-264

अथवा/OR

अदत्त व्ययों की परिभाषा दीजिए।

Define outstanding expenses.

3. बैंक समाधान विवरण के क्या उद्देश्य हैं ?

What are the purpose (objects) of Bank Reconciliation Statement ?

अथवा/OR

सुधार को प्रविष्टियों से आप क्या समझते हैं ?

What do you mean by Rectifying entries ?

4. इकहरा लेखा प्रणाली की चार मुख्य विशेषताएँ बताइये।

State four characteristics of Single Entry System.

अथवा/OR

अग्नि बीमा के अन्तर्गत स्टॉक की हानि की गणना करने की विधि का वर्णन कीजिए।

Explain the Procedure of Calculating loss of Stock Under a Fire Policy.

5. ब्याज सहित तथा ब्याज रहित विनियोगों को समझाइए।

Explain cum-interest and Ex-interest investments.

अथवा/OR

निम्नांकित पर टिप्पणियाँ लिखिए :-

(i) अतिरिक्त भाड़ा

(ii) असमाप्त समुद्री यात्रा

Write short notes on the following :-

- (i) Primage
(ii) Voyage in-progress
6. साझेदारी के विघटन में वसूली खाते का क्या उद्देश्य है ?

What is the object of a realisation account in dissolution of partnership.

अथवा/OR

फर्मों के एकीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं ?

What are the objectives of firms amalgamation.

खण्ड - 'स'

SECTION - 'C'

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9×5=45

Long Answer Type Questions

7. समायोजन की प्रविष्टियों से आप क्या समझते हैं ? वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वे क्यों आवश्यक हैं ?

What do you mean by adjustment entries ? Why are they necessary for preparing financial statements ?

अथवा/OR

नीचे दिए गए विवरण से 31 दिसम्बर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये व्यापारिक तथा लाभ-हानि खाता बनाए तथा उसी तिथि को आर्थिक चिट्ठा बनाइए

P.T.O.

हाथ में रोकड़	80,000	वेतन	1,50,000
भूमि तथा भवन	5,00,000	ह्वस	65,000
प्रारम्भिक रहतिया	2,50,000	फर्नीचर	75,000
मजदूरी	1,00,000	अप्राप्य ऋण	25,000
प्राप्य विपत्र	1,00,000	ऋणी	75,000
ब्याज दिया	10,000	महाजन	2,80,000
कार्यालय व्यय	40,000	पूँजी	12,50,000
कुली भाड़ा	3,000	बैंक ऋण	2,00,000
संयन्त्र एवं यन्त्र	2,85,000	ब्याज प्राप्त	25,000
क्रय	5,00,000	विक्रय	8,50,000
विनियोग	3,50,000		

समायोजन :-

- (i) अन्तिम रहतिया 5,00,000
(ii) अदत्त मजदूरी 25,000
(iii) प्राप्य ब्याज 30,000
(iv) अतिरिक्त अप्राप्य ऋण 15,000

From the particulars given below, prepare the trading and profit and Loss Account for the year ended 31st December, 2007 and a Balance Sheet as on that date :

Cash in hand	80,000	Salaries	1,50,000
Land and Building	5,00,000	Depreciation	65,000
Opening Stock	2,50,000	Furniture	75,000

(13)		JK-264	
Wages	1,00,000	Bad Debts	25,000
Bills Receivable	1,00,000	Debtors	75,000
Interest Paid	10,000	Creditors	2,80,000
Office Expenses	40,000	Capital	12,50,000
Coolie Charges	3,000	Bank Loan	2,00,000
Plant and Machinery	2,85,000	Interest	25,000
		Received	
Purchases	5,00,000	Sales	8,50,000
Investment	3,50,000		
Adjustments :-			
(i) Closing Stock		5,00,000	
(ii) Out standing wages		25,000	
(iii) Interest Receivable		30,000	
(iv) Additional Bad Debts		15,000	

8. अशुद्धियों के सुधार से आप क्या समझते हैं ? अशुद्धियों को सुधारने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

What do you understand by Rectification of Errors ? Briefly describe the procedure of rectifying errors.

अथवा/OR

निम्नलिखित विवरणों से पूर्णिया के संजू पटेल का बैंक समाधान विवरण बनाइए :-

P.T.O.

(14)		JK-264	
(i) पास बुक के अनुसार बैंक शेष			10,000
(ii) बैंक में चेक जमा किया गया पर रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं लिया गया था।			500
(iii) चेक पाया पर बैंक में नहीं भेजा			1,200
(iv) बैंक स्तम्भ का जमा भाग कम जोड़ा गया			200
(v) स्थायी आदेशानुसार बैंक के द्वारा बीमा प्रीमियम का सीधा भुगतान			600
(vi) बैंक प्रभार रोकड़ बही में दो बार लिखा गया			20
(vii) चेक निर्गमित किया पर बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ			500
(viii) चेक पाया पर रोकड़ बही में दो बार लिखा गया			1,000
(ix) भुनाया गया-विपन्न अनादृत हो गया पर रोकड़ बही में लेखा नहीं लिया गया			5,000
Prepare a Bank Reconciliation statement of Sanju Patel of Purnia from the following particulars.			
(i) Bank balance as per the Pass Book			10,000
(ii) Cheque Deposited into Bank but no entry was passed in the Cash Book			500
(iii) Cheque received but not sent to Bank			1,200
(iv) Credit side of bank column cash short			200
(v) Insurance Premium paid directly by the bank under the standing advice			600

(vi) Bank Charges entered twice in the cash book	20
(vii) Cheque issued but not presented to the bank for payment	500
(viii) Cheque received entered twice in the Cash Book	1,000
(ix) Bill discounted dishonoured not recorded in the the cash book	5,000

9. शुभम दोहरा प्रणाली के आधार पर पूर्ण लेखे नहीं रखता है। 1 जनवरी, 2007 को उसका व्यापारिक आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित प्रकार था :-

पूँजी और दायित्व		सम्पत्तिया और जायदाद	
लेनदार	5,000	नकद हाथ में	100
पूँजी	15,000	बैंक में शेष	900
		देनदार	5600
		रहितया	3000
		फर्नीचर	1,400
		प्लाण्ट	9,000
	<u>20,000</u>		<u>20,000</u>

वर्ष के अन्त में उसकी आर्थिक स्थिति निम्नलिखित थी- नकद हाथ में 250 रु० बैंक में शेष 1250 रु० रहितया 2500 रु० देनदार 6000 रु० फर्नीचर 1400 रु० प्लाण्ट 8600 रु० और लेदार 2000 रु०।

उसने वर्ष के दौरान 11,000 रु० निकाले जिसमें से 7500 रु० का व्यय व्यापार के लिए स्कूटर खरीदने के लिए लिया। वर्ष का लाभ निकालने के लिए आवश्यक विवरण बनाने और निम्नलिखित समायोजनाओं को करने के बाद 31 दिसम्बर, 2007 को आर्थिक चिट्ठा बनावे।

- (अ) फर्नीचर और स्कूटर पर 10% ह्रास लगावे।
 (ब) अप्राप्तय ऋण 200 रु०।
 (स) देनदार का 5% सदिग्ध है।

Shubham has not kept full accounts on the basis of Double Entry System on 1st January 2007 his trading Balance Sheet was as follows :-

Capital and Liabilities		Assets and Properties	
Creditors	5,000	Cash in Hand	100
Capital	15,000	Cash at Bank	900
		Debtors	5600
		Stock	3000
		Furniture	1,400
		Plant	9,000
	<u>20,000</u>		<u>20,000</u>

His Financial Position at the end of the year was as follows cash in hand Rs. 250, cash at bank Rs. 1250, Stock

Rs. 2500 Debtors Rs. 6000, Furniture Rs. 1400, Plant Rs. 8600 and Creditors Rs. 2000.

He withdrew during the year Rs. 11,000 out of which he spent Rs. 7500 on purchasing a scooter for the business. Prepare necessary statement to determine the net Profit for the year and a Balance Sheet as at 31st December 2007 after making the following adjustments.

- Depreciate Furniture and Scooter ! 10%
- Bad Debts Rs. 200
- 5% of Debtors are doubtful

अथवा/OR

अग्नि बीमा के अन्तर्गत स्टॉक की हानि की गणना करने को लेषि का दर्जन कीजिए। Explain the procedure of calculating loss of stock under a fire policy.

10. x लि० ने निम्नांकित विनियोग लिये :-

- जुलाई 1,200-25000 रु० के अंकित मूल्य का 5% सरकारी ऋण 98 रु० के निर्गमित मूल्य पर क्रय किया। ब्याज आधे साल के अन्तर से 1 जनवरी और 1 जुलाई को देय होता है।
- अक्टूबर 1,200-40,000 रु० के अंकित मूल्य के 6% सरकारी बाण्ड ब्याज सहित 97% की दर पर क्रय किये। ब्याज प्रति वर्ष 1

R.T.O.

फरवरी और 1 अगस्त को देय होता है।

- फरवरी 15,2001-20,000 रु० के अंकित मूल्य का 5% सरकारी ऋण ब्याज सहित 99% की दर पर बेचा।

31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये x लि० के विनियोग तथा ब्याज खाते तैयार कीजिए। यह ध्यान रखिए कि प्रारम्भिक निर्गमन द्वारा क्रय को छोड़कर शेष समस्त क्रय तथा विक्रय पर ¼ प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी तथा अन्य व्यय देय है। कर का ध्यान नहीं रखना है।

x Ltd. made the following investments :-

- July 1,2000- purchased for 5% Govt. Loan for the face value of Rs. 25000, at issue price of Rs. 98. Interest is payable at half-yearly rests on 1st Jan. and 1st July.
- Oct, 1,2000 - purchased of 6% Govt. Loan Bonds for the face value of Rs. 40,000 @ 97% Cum-int. Interest is payable on 1st Feb. and 1st Aug. cash year.
- Feb 15, 2001 Sold 5% Govt. Loan of the nominal value of Rs. 20,000 @ 99% Cum-int.

Write up the investment and interest account of x Ltd. for the year ending 31st march, 2001 taking in to consideration that stamp duty and other charges at ¼% are payable in case of purchase and sales excluding subscriptions to initial issue Ignore tax.

अथवा/OR

प्रेसिडेन्सी टाउन्स इन्सोल्वेन्सी अधिनियम और प्राविन्शियल इन्सोल्वेन्सी अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार लेनदार क्या है ?

What are preferential creditors according to presidency towns insolvency act and provincial insolvency Act ?

11. ABC फर्म का 31 दिसम्बर, 2000 को चिट्ठा निम्नानुसार था :-

लेनदार	7,000	रोकड़	400
रहनपर ऋण	18,00	देनदार	9000
पूँजी A	5,000	स्टॉक	3000
B	4,000	भवन	4000
		पूँजी C	1,400
	<u>17,800</u>		<u>17,800</u>

उक्त दिनांक को फर्म का विघटन करना तय हुआ। वे क्रमशः 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। भवन से 3000 रु०, स्टॉक से 2400 रु० तथा देनदारों से 1450 रु० बट्टा काटकर प्राप्त हुए। लेनदारों को 250 रु० के बट्टे पर भुगतान कर दिया गया।

वसूली के व्यय 350 रु० हुए। C ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया तथा उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति से 1 रु० केवल 50 पैसे ही वसूल हुए।

आपको 'गार्नर बनाम मर्रे' के अनुसार वसूली खाता, रोकड़, खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते बनाने हैं।

The following is the Balance that of A B and C firm as on

P.T.O.

31st December 2000.

Creditors	7,000	Cash	400
Loan on Mortgage	18,00	Debtors	9000
Capital A	5,000	Stock	3000
B	4,000	Building	4000
		Capital C	1,400
	<u>17,800</u>		<u>17,800</u>

It was decided to dissolve the firm on that date. They share profits and losses in the ratio of 3 : 2 : 1 respectively. Building realised Rs. 3000. Stock Rs. 2400 and debtors at a discount of Rs. 1450. Creditors were paid off at a discount of Rs. 250. Loan was paid at its value. The realisation expenses amounted to Rs. 350. C declared himself insolvent and from his personal property only 50 paise in the rupee was realised you are required to prepare realisation A/c, Cash A/c and Partners capital A/c according to Garner vs. Murray.

अथवा/OR

प्रकीकरण का क्या आशय है ? इसके उद्देश्य एवं लाभ लिखिए।

What is amalgamation ? Write its objects and merits.

Copies 4000

(20)